

MSIL: COS: NSE&BSE: 2020

1st August, 2020

Vice President

National Stock Exchange of India Limited

"Exchange Plaza", Bandra - Kurla Complex

Bandra (E)

Mumbai - 400 051

General Manager

Department of Corporate Services

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Mumbai – 400 001

Sub: Copy of notice published in newspaper

Dear Sir,

Please find attached herewith the newspaper notice published in 'The Financial Express' and 'Jansatta' regarding information on 39th Annual General Meeting, book closure and final dividend of the Company.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For Maruti Suzuki India Limited

Sanjeev Grover Vice President &

Company Secretary

Encl: As above

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

CIN: L34103DL1981PLC011375

Registered & Head Office Maruti Suzuki India Limited, 1 Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, India. Tel: 011-46781000, Fax: 011-46150275/46150276 www.marutlsuzuki.com Gurgaon Plant: Maruti Suzuki India Limited, Old Palam Gurgaon Road, Gurgaon 122015, Haryana, India. Tel. 0124-2346721, Fax: 0124-2341304 Manesar Plant: Maruti Suzuki India Limited, Plot No.1, Phase 3A, IMT Manesar, Gurgaon 122051, Haryana, India. Tel: 0124-4884000, Fax: 0124-4884199

Current Year | Previous Year

Ended

PADAM COTTON YARNS LIMITED

CIN: L17112HR1997PLC033641 Regd. Office: 196, 1st Floor, Opp. Red Cross Bhawan, G.T. Road, Karnal- 132001 (Haryana) | Tel: 0184-6616601-9 Email: rajevoswal@yahoo.com | Website: www.padamcotton.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE, 2020

			uarter Ende	-	ites in coming
SI.	i e		Year Ended		
No.	Particulars		a .	(Audited)	
	5879600 (755A 58590 5.5)	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
(1)	Total Revenue from Operations	0.00	0.15	0.00	0.48
(II)	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	-3.46	-3.07	-4.67	-10.30
(III)	Net Profit / (Loss) for the period after tax	-3.46	1.24	-4.67	-5.99
(IV)	Total Comprehensive Income for the period	-3.46	-3.07	-4.67	-10.30
(V)	Paid Up Equity Share Capital	387.30	387.30	387.30	387.30
(VI)	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (Not) Basic & Diluted	-0.09	-0.03	-0.12	-0.15

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of Bombay Stock Exchange (BSE), www.bseindia.com and Company's website www.padamcotton.com. For Padam Cotton Yarns Limited

Date: 31.07.2020? Place: Kamal

Rajev Gupta (Managing Director) DIN: 00172828

Eleanor Realty Holdings India Private Limited Registered Office: Flat No- 588, Pocket -4, Sector -11, Dwarka, New Delhi-110075 Email Id: kapil gupta@xanderfunds.com

CIN: U70200DL2017PTC314477

Audited Financial Results – for the year ended 31st March 2020

SI. No.	Particulars	Current accounting year ended 31/03/2020	Previous accounting year ended 31/03/2019
1.	Total Income from Operations	2,556.72	2,191.73
2.	Other Income	11.89	18.82
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(1,795.79)	(1,786.73)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items).	(1,795.79)	(1,786.73)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,800.68)	(1,788.74)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1,800.68)	(1,788.74)
6.	Paid up Equity Share Capital	10	10
7.	Reserves (excluding revaluation/revenue reserve)	(2,816.92)	(1,016.24)
8	Net worth	(2,806.92)	(1,006.24)
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	33,558.11	32879.32
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	Thorac Street Cook	.70000000000
11.	Debt Equity Ratio *	(11.96)	(32.68)
12.		(645.41) (645.41)	(641.13) (641.13)
13.	Capital Redemption Reserve	Nas.	- 2
14.	Debenture Redemption Reserve *	(34)	(4)
15.	Debt Service Coverage Ratio *	0.51	0.46
16.	Interest Service Coverage Ratio *	0.51	0.46

a) The aforesaid results are reviewed by Audit Committee and subsequently approved by Board of Directors at its meeting held on 30th July, 2020;

b) The Company has not created a Debenture Redemption Reserve in respect of NCD under Section 71 of the Companies Act, 2013 as there is loss in the current year and the Company does not have retained earnings to create reserve. ** Definition of ratio / formulas used for actual computation, are as follows:

1. Debt / Equity Ratio : Paid up debt capital/ (Equity share capital + Equity component of convertible debentures + Reserve and surplus excluding earmarked reserves) 2. Debt Service Coverage Ratio:Earnings before interest and tax for the period/year)/ {(Interest

Expense for the period/year) + (Principal repaid (net of receipts) of the borrowings during the

3. Interest Service Coverage Ratio: (Earnings before interest and Tax for the period/year)/(Interest Expense for the period/year)

For Eleanor Realty Holdings India Private Limited Place: New Delhi

Neeraj Kumar (Director)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. कॉनकॉर concor एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) (A govt. of India Undertaking) ICD, Tughlakabad, New Delhi - 110020

PUBLIC AUCTION/TENDER NOTICE DISPOSAL OF UNCLEARED/UNCLAIMED IMPORTED/DOMESTIC DAMAGE CONTAINER/ CARGO THROUGH E- AUCTION

Container Corporation of India Ltd. shall be auctioning scrap items, domestic empty damage containers and unclaimed/uncleared imported cargo landed at the terminals of Area-I (North), those containers arrived on or before 31.05.2020 through e-auction on 10.08.2020, 21.08.2020 & 31.08.2020 on "AS IS WHERE IS BASIS". All details along with Terms & Conditions of auction sale & cargo details will be available on www.concorindia.co.in & www.mstcecommerce.com w.e.f. 01.08.2020, 11.08.2020, & 21.08.2020. All importers including Government Undertakings. Departments whose containers/goods are lying unclaimed/uncleared and falling in the said list uploaded in website at respective terminals, because of any dispute, stay by Court/ Tribunal/others or any such reason may accordingly inform the concerned Executive Director, Area-I (North) CONCOR, as well as Commissioner of Customs of the concerned Commissionerate, and file their objections/claims regarding disposal of such goods within 7 (Seven Days) of this notice failing which the goods will be auctioned on "AS IS WHERE IS BASIS" without any furthernotice. For full details please log on to www.concorindia.co.in & www.mstcecomm erce.com

Executive Director, Area-I (North)



INDRAPRASTHA MEDICAL CORPORATION LIMITED

Regd. Office: Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi – 110 076 (India)

Corporate Identity Number: L24232DL1988PLC030958

Phone: 91-11-26925858, 26925801, Fax: 91-11-26823629

E-mail: imcl@apollohospitals.com, Website: delhi.apollohospitals.com

NOTICE

Transfer of Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority Pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act 2013 ("the

Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, notice is hereby given to the shareholders of the Company that all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of IEPF Authority.

The Company has already sent individual communication to the latest available addresses of the shareholders, whose shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF authority and advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded the statement containing the names of the shareholders, whose shares are due for transfer to the demat account of IEPF Authority, with their folio number or DP ID-Client ID on its website at delhi.apollohospitals.com

In case, the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th October, 2020, the Company will proceed to transfer the shares to the demat account of the IEPF Authority without any further notice, as per procedure stipulated in the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF authority, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the demat account of IEPF Authority. Please note that on issue of such duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) which stand registered in their name will be deemed cancelled and non-negotiable. In cases, shares are held by concerned shareholders in demat form and are liable to be transferred to demat account of IEPF authority, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of such shares to the demat account of IEPF

The Concerned shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the demat account of IEPF Authority, as per the above mentioned Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to IEPF.

The concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said shares(s) along with the dividend(s) from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

For any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) - M/s. Link Intime India Private Limited, Unit: Indraprastha Medical Corporation Limited at Noble Heights, 1st Floor, C-1 Block, LSC. Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058.

For Indraprastha Medical Corporation Limited

Date: 31.07.2020 Place: New Delhi

P. Shivakumar Managing Director

CINEVISTA

Regd. Office: Plot No. 1, L.B.S. Marg, Gandhinagar, Kanjurmarg (W), Mumbai - 400078 Extract of the Standalone & Consolidated Audited Results for the Quarter & Year ended 31st March, 2020

SI	Particulars		Stand	alone		Consol	dated
No.	10	Quarter	Ended	Year E	nded	Year E	nded
	1	3/31/2020	3/31/2019	3/31/2020	3/31/2019	3/31/2020	3/31/2019
1	Total Income from Operations	603.02	636.53	2,264.82	4081.09	2264.82	4125.11
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(107.88)	(96.73)	(304.18)	(89.08)	(304.34)	(129.84)
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	(107.88)	(96.73)	(304.18)	(89.08)	(304.34)	(129.84)
1	Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(108.04)	(96.92)	(307.10)	(90.59)	(307.26)	(131.35)
5	Total Comprehensive income for the year {Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)}	-		-		-	
3	Equity Share Capital: (Face Value of Rs. 2/- per share)	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73	1,148.73
	(Face Value of Rs. 10/- per share)	-	-	-	-	27.02	27.02
7	Reserves (exclusing Revaluation Reserve)	4,746.62	5,053.71	4,746.61	5,053.71	4,335.98	4,876.19
3	Earnings per Share of Rs.2/- each (for continuing and discontinued operations)	-	Ī	-	-	-	
	1. Basic:	-	-	-	-	-	
	2. Diluted.	_				-1	

Place : Mumbai

Date : July 31, 2020

financialexp.epapr.in

Date: 1st August, 2020

Note: (a) The above is extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company website www.cinevistaas.com

By order of the Board For Cinevista Limited

Sd/-Prem Krishen Malhotra

Chairman

(Rs. in Lakhs)

SI.

No

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Place: Mumbai Date: 31st July, 2020

BRAJ BINANI GROUP

BINANI INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town Rajarhat Main Road, PO Hatiara, Kolkata - 700 157, India Corporate Office: Mercantile Chambers, 12 J.N.Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001, India CIN No. L24117WB1962PLC025584

Extract of Stan	idaione & Consolidated Una	ludited Financial Results	for the Quarter	and Nine Wonths Ended 5.	1st December, 2019	
			7.0		2000	
50	50	Appenditude sense sense	57	Δ	Leaders and a secretary	
						$\overline{}$

	9		Stand	falone		35 8			Consc	lidated	3000	
V-10-70-12-10-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70	(Quarter en	ded	Nine Mor	nths Ended	Year ended		Quarter end	ded	Nine Mon	ths Ended	Year ended
Particulars	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2019	30.09.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
AND THE STATE OF T	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations	52	1,324	69	1,401	259	1,803	44,214	41,076	47,096	127,412	143,291	190,270
Profit / (Loss) from ordinary activities (Before tax and Extraordinary and Exceptional Items)	(150)	846	(159)	529	(571)	(47)	1,509	(8,951)	(2,914)	(11,474)	(15,904)	(11,155)
Net Profit / (Loss) from ordinary activities (After tax and Extraordinary and Exceptional Items)	(150)	846	(159)	(10,296)	(564)	(177,378)	1,367	(9,039)	(3,912)	(43,219)	(18,152)	108,953
Total Comprehensive Income / (Loss) for the period (Comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	(150)	846	(160)	(10,296)	(568)	(177,394)	1,367	(9,039)	(3,913)	(43,219)	(18,156)	109,081
Paid- up Equity Share Capital (Face Value per share Rs.10 each)	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve/ Business Reorganization Reserve)			E			(84,236)						4,805
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualised)	0 2000000	S = 500	C)	50 200005400	G 7555007					12 2002-00113	C 100002.04701	
(a) Before Extraordinary items- Basic & Diluted	(0.48)	2.69	(0.51)	(32.82)	(1.80)	(565.47)	4.39	(28.78)	(12.43)	(133.67)	(57.75)	347.47
(b) After Extraordinary items- Basic & Diluted	(0.48)	2.69	(0.51)	(32.82)	(1.80)	(565.47)	4.39	(28.78)	(12.43)	(133.67)	(57.75)	347.47

1The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Company's website www.binaniindustries.com or at the websites of BSE (www.bseindia.com) or NSE (www.nseindia.com) or CSE (www.cse-india.com)

2The Statement of Standalone & Consolidated audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on July 31, 2020.

By order of the Board For BINANI INDUSTRIES LIMITED

Visalakshi Sridhar Managing Director, CFO and Company Secretary

DIN 07325198

LM MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED CIN: U64204DL2017PTC314448

Read. Office: 1121, Hemkunt Chambers, 11th Floor, 89, Nehru Place, New Delhi -110019

Particulars

Corp. office: C-34, Electronic City, Sector-62, Noida-201307 (U.P.) Ph No. 0120-2400780, 2402301 | Email: corporate@Immedia.in | Website: Immedia.co.in

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52(4), of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Rupees in lakhs)

	60 600-0000 (00000)	31.03.2020 Audited	31.03.2019 Audited
1.	Total Income from Operation	9.46	242.85
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	1,361.60	0.35
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	1,361.60	0.35
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	371.97	0.26
5.	Total Comprehensive Income (Compromising Profit/ (Loss) (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	371.97	0.26
6.	Paid up Equity Share Capital	0.02	0.02
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	372.66	0.69
8.	Net Worth	372.68	0.71
9.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	25,000.40	0.40
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares		100
11.	Debt Equity Ratio	67.08	0.56
12.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic : (in Rupees) 2. Diluted: (in Rupees)	185,985 185,985	136 136
13.	Capital Redemption Reserve		
14.	Debenture Redemption Reserve		(*)
15.	Debt Service Coverage Ratio	1.53	NA
16.	Interest Service Coverage Ratio	1.53	NA

The above financial results have been approved by the Board of Directors at its meeting held.

2. The Company has adopted the Indian Accounting Standards ("Ind AS") from the financial year 2019-20 being the year of adoption and financial year 2018-19 being the comparative year. Accordingly, financial results for the year ended on 31 March 2020 have been prepared in accordance with Ind AS.

The above is an extract of the detailed format of annual financial results filed with the BSE Limited (Stock Exchange) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the annual financial results are available on the website of the Stock Exchange (i.e. www.bseindia.com) and on the website of the Company (i.e.www.lmmedia.co.in).

 For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEB. (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed on the www.bseindia.com.

For and on behalf of the Board of Directors LM Media Services Private Limited

Sd/-

30th June, 2020.

Kaushik Ramakrishnan (Director) Place: Mumbai

Date: 30.07.2020

MARUTI 🎉 🍣 SUZUKI MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED CIN: L34103DL1981PLC011375

Regd. Off.: Plot No.1. Nelson Mandela Road, Vasant Kuni, New Delhi-110070 Ph.: +91 (11) 46781000, Fax: +91 (11) 46150275 www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

INFORMATION REGARDING NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE AND FINAL DIVIDEND

The AGM of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 26th August 2020 at 10:00 a.m. through VC/OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA' and SEBI to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the Meeting

The Notice of AGM and Annual Report shall be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website i.e. www.marutisuzuki.com and on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com Manner of registering /updating email addresses:

a) Members holding the shares in physical form, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by writing to its Registrar and Transfer Agent (RTA) at einward.ris@kfintech.com along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the Member self-attested copy of PAN card and self-attested copy of any other document (eg. Driving License, Vote ID card, Passport etc.) in support as address proof of the Member as registered with the Company

b) Members holding shares in dematerialised form, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

Manner of casting vote(s) through e-voting:

a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system (e-voting). The manner of voting remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialised form, physical form and for Members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of AGM which shall also be available on the website of the Company i.e.

b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. c) The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available

to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM.

5. Book Closure for dividend and payment thereof:

a) The Company has fixed Book Closure from Saturday, the 15th August, 2020 to Wednesday, the 26th August, 2020 (both days inclusive) for determining entitlement of Members to dividend for the Financial Year 2019-20.

Subject to the approval of Members, Dividend will be paid to the Members on the basis of details of beneficial ownership furnished by the Depositories, as at the close of Friday, the 14th August, 2020 and in respect of shares held in physical form to those Members whose name will appear in the Register of Members of the Company as on the close of Wednesday, the 26th August, 2020.

c) As per the relevant circulars, payment of dividend shall be made through electronic mode to the Members who have updated their bank account details. Dividend warrants/ demand drafts will be dispatched to the registered addresses of the Members who have not updated their bank account details, after normalization of postal service.

 d) Payment of dividend will be subject to deduction of Tax at Source (TDS) at applicable rates. For more details, please refer to the Notes to Notice of AGM.

Manner of registering mandate for receiving Dividend

Members are requested to register/update their complete bank details: a) with their Depository Participants with whom they maintain their demat accounts, if shares

are held in dematerialised form by submitting the requisite documents. Details in a form prescribed by your Depository Participant may also be required to be furnished; and b) with the Company (where shares are held in physical mode) at einward.ris@kfintech.com

along with a copy of signed request letter mentioning the name of member, folio no. bank details, self-attested copy of PAN card and a cancelled cheque leaf. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote

e-voting or voting at the AGM. For Maruti Suzuki India Limited

Sanjeev Grover

New Delhi 31" July, 2020 Vice President & Company Secretary

NOVA IRON & STEEL LTD. Regd Office Wilage Dagori, Tetall-

Bolha, Disti - Bilaspur, Chitatiogarti CIN: L02710CT 1989PLC010052 E-mál rai_nid2007@yahoo.com Tel: 077-52285217 Fax 077-52285213 website: www.novairorsteel.com.

NOTICE

Meeting of Board of Director of the Company to be held on 13/08/2020, inter-alia to consider Unaudited Financial Results for the quarter ended 30/06/2020, Notice is available at Company's website and stock Exchange's website www.bseindia.com For Nova Iron & Steel Ltd

(Dheera Kumar) Place New Delhi Date 31.07 2023 Company Secretary

MARBLE FINVEST LIMITED Regd Office: 3. Industrial Area. Phase-1

Chandigath: Cilv. L65910CH1984PLC021280 Ernal marblefir/M@gmail.com website www.mathrefinest.com Tel: 0172-3011701/61 Fax 0172-3311704 NOTICE

Meeting of Board of Director of the Company to be held on 12/08/2020, interalia to consider Unaudited Financial Results for the guarter ended 36/05/2020. Notice is available at Company's website and stock Exchange's website:

WWW.TISOLITA

Place Chandigath (Sure) Choudhary)

For Marbie Finvest Limited

Date: 31 07 2020 Company Secretary INDIAN TONERS & DEVELOPERS LIMITED (CIN NO. L74993UP1990PLC015721)

Regd. Office: 10.5 Km Milestone, Rampur Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.) E-Mail ID - info@indiantoners.com, Website: www.indiantoners.com Phone No. 0595-2356271

Fax No. 0595-2356273 NOTICE

Notice is hereby given in terms o Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held at New Delhi or Tuesday, 25th August, 2020 to consider and approve, Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended

This notice is also available on the website of the Company and Stock Exchange where the equity shares of the Company are listed viz. www.indiantoners.com and www.bseindia.com respectively. for Indian Toners & Developers Limited

Place: New Delhi S. C. Singhal Dated: 31.07.2020 Company Secretary

Particulars



PERSONAL

PUBLIC NOTICE clients Kamal Prakash Kalra S/o Lt Sh. Boga Ram Kalra and his wife Reeta Kalra, both R/o WZ-17A, First Floor Right Side, Tihar Village, Tilak Nagar, Delhi-110018, has severed all relations and disowned their son Lokesh Kalra, debarring him from all their moveable and immoveable properties and assets due to his misbehavior and misconduct. If Anybody dealing with him in any manner whatsoever shall be doing so

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD
Branch Address: 7th Floor, Videocon Tower,
Block E., Jhandewalan Extn New Delhi-110055. NOTICE FOR CANCELLATION OF E-AUCTION

at his/her/their own risk, cost and responsibility. My clients will not be

responsible in any manner whatsoever.

Ch.no.512, Rohini Courts, Delhi-85

Kamal Singh (Advocate)

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE E-AUCTION SCHEDULED FOR 19TH AUGUST 2020 FOR THE SALE OF SECURED ASSETS IN RITU RANI VASUDEVA (5788824) RANVEER SINGH (5790694), VIRENDER KUMAR (5006790), & VINAY SHARMA (5678924) HAS BEEN CANCELLED DUE TO ERROR IN THE ARTICLE PUBLISHED IN NEWSPAERS: FINANCIAL EXPRESS & JANSATTA ON 29.07.2020. Place: - DELHI NCR

Date -31.07.2020 Tata Capital Financial Services Ltd. ertisement Booking 0120-6651214

- 17111 SHIVKAMAL IMPEX LIMITED Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016

Tel: 011-26192964, e-mail: siv_kamal@yahoo.com, info@shivkamalimpex.com

CIN: L52110DL1985PLC019893, Website: www.shivkamalimpex.com

Quarter ended

Year ended

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and

Year Ended March 31, 2020 (Rs. In lacs)

No.		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	11.69	7.71	37.47	29.06
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	9.56	4.17	27.07	16.81
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.56	4.17	27.07	16.81
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	7.15	3.07	20.25	12.42
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.15	3.07	20.25	12.42
6	Paid up Equity Share Capital	100.56	100.56	100.56	100.56
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet			515.54	495.29
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter) 1. Basic 2. Diluted	Rs.0.71 Rs.0.71	Rs.0.30 Rs.0.30	Rs.2.01 Rs.2.01	Rs.1.23 Rs.1.23

Notes:

The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results is available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at

The company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") as

www.shivkamalimpex.com . The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their respective Meeting(s) held on July 31, 2020.

notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 from April 1, 2019 and effective date of such transition is April 1, 2018 By the Order of the Board

For Shivkamal Impex Limited Manu Jain (Director)

DIN: 07801467



BAKERI URBAN DEVELOPEMENT PVT. LTD. "Sanskrut", Nr. Old High Court Road, Off Ashram Road, Ahmedabad 380009. Tel: 91-79 40001300 Fax :91-79-40001399

Particulars

Net Profit/(Loss) for the period before Tax and exceptional items

Net Profit/(Loss) for the period before tax and after exceptional items

e-mail: info@bakeri.com Website: www.bakeri.com CIN No.: U70100GJ1996PTC030783

CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020

6 months

31/03/2020

(Unaudited)

ended

2,527.76

(187.10)

(187.10)

(257.92)

(258.89)

1.01

Place: New Delhi

Date: 31.07.2020

Year ended

31/03/2020

(Unaudited)

6,377.13

39.25

39.25

(114.25)

(115.22)

1.01

Year ended ended 31/03/2019 (Audited) 3849.37 5,203.96 226.35 (291.08)226.35 (291.08)143.67 (286.86)143.67 (286.86)1.01 1.01 1,453.75 1,315.75

1,200.52 1,200.52 (7) Net worth Earnings Per Share (Face value per share Rs.10/- each) (8)(2,569.77)(1,030.93)1,425.99 (2,889.62)1. Basic: (Rs. per share) 1,425.99 2. Diluted: (Rs. per share) (1,030.93)(2,569.77)(2,889.62)Notes: (a) The above is an extract of the detailed format of half yearly results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half yearly financial results are available on

the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and Company (www.bakeri.com.) (b) Previous comparative period's figures have been reclassified/regrouped/restated, wherever necessary.

Ahmedabad 31st July, 2020

Total Income from Operations

Paid up Equity Share Capital

Net Profit/(Loss) for the period after tax

Total Comprehensive Income for the period

Asit N. Somani (Director)

(Rs. In Lacs)

30/09/2019 (Unaudited)

6 months

For, Bakeri Urban Development Private Limited

New Delhi

MARUTI S SUZUKI

मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्याः प्लॉट नं. १, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 फोन: +91 (11) 46781000, फैक्स: +91 (11) 46150275 www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

विडियो कॉन्क्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुताल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 39वीं वार्षिक जाम बैठक ('एजीएम'), बुक बलोजर एवं अंतिम लामांश के संबंध में सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित सामान्य परिपन्न सं 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 कमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 तथा कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') एवं सेबी द्वारा जारी किये गये अन्य परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित किये जाने वाले व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी के सदस्यों की एजीएम बुधवार, 26 अगस्त, 2020 को प्रातः 10.00 बजे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / ढिपोंजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.marutisuzuki.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bsoindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई-मेल पतों को पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रियाः

क) फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे सदस्य का नाम एवं पता, पैन कार्ड की रच-सत्यापित प्रति एवं कंपनी के पास पंजीकृत अनुसार सदस्य के पते के प्रमाण में समर्थन में किसी एक दरतावेज (जैसे द्वाइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि) की स्व-सत्यापित प्रति के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की कांपी के साथ इसे अपने रजिस्टार एवं टांसफर एजेंट (आरटीए) को ई-मेल einwardris@kfinlech.com पर भेजकर अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट करा सकते हैं।

ख) डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे अपने क्षिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

ई-बोटिंग के माध्यम से बोट देने की प्रक्रियाः

क) सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सुबना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप, फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण और वे सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं कराया है, के लिए रिमोट वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कि कंपनी की वेबसाइट www.marufa.izuki.com पर उपलब्ध होगी। ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई

अपना बोट नहीं दिया है, केवल वे ही एजीएम में बोट देने के पात्र होंगे। ग) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने हेतू लॉगइन क्रेडेशियल्स ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को उपलब्ध कराएं जाएंगे। सदस्यगण जिन्हें ई-मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में नोट्स

जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से

में दिये गये निर्देशों का पालन करके अपना लॉगइन क्रेडेंशियल्स जेनरेट कर सकते हैं। . साभारा के लिए बुक क्लोजर एवं उत्तका भुगतानः

क) कंपनी ने वितीय वर्ष 2019-20 के लाभांश के भुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण करने के लिए बुक क्लोजर अवधि शनिवार, 15 अगस्त, 2020 से बुधवार, 26 अगस्त, 2020 (दोनों दिवस शामिल) निर्धारित की है।

ख) सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, सदस्यों को लाभाश का मुगतान शुक्रवार, 14 अगस्त, 2020 की समाप्ति पर डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत किये गये लागार्थी स्वामित्व के विवरणों के आघार पर किया जाएगा और फिजिकल प्रारूप में घारित शेयरों के संबंध में उन सदस्यों को भगतान किया जाएमा जिनके नाम बधवार. 26 अगस्त. 2020 की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे।

ग) संगत परिपत्रों के अनुसार लामांश का मुगतान केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने बैंक खाता विवरण अपडेट करावे हैं। उन सदस्यों जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं कराया है, उन्हें लाभांश वारंट/डिमांड ढाट उनके पंजीकृत पतों पर डाक सेवा सामान्य रूप से शुरू होने के बाद भेजा जाएगा।

घ) लाभांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की कटौती के अधीन किया जाएगा। विस्तृत विवरणों के लिए कृपवा एजीएम की सूचना में नोट्स को देखें।

लामांश प्राप्त करने के लिए मेंडेट पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण निम्नानुसार पंजीकृत/अपढेक कराएं:

डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत कराए। डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा निर्धारित प्रारूप का विवरण भी अपेक्षित अनुसार प्रस्तुत करना

ख) सदस्य का नाम, फोलियो नं., बैंक विवरण, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति एवं एक कैंसल चैक के साथ हस्ताहारित अनुरोध पत्र की कॉपी के साथ कंपनी (जहां शेयर फिजिकल प्रारूप में घारित हैं) को ई-मेल: einward.ris@klintech.com पर मेल मेजरक पंजीकृत कराएं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिनोट ई-वोटिंग वा एजीएम में बोटिंग के मध्यम से वोट देने की प्रक्रिया के संबंध में

एजीएम की सूचना में दिये गये नोट्स को भली-मांति पढ़ लें।

मारूति सुजुकी इंडिया सिमिटेंड के सिये

नई विल्ली 31 जुलाई, 2020

KVB) Karur Vysya Bank

संजीव मोवर रुप-अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

द करूर वैश्य बैंक लि. 882, मास्टर पृथ्वीनाथ मार्ग, करोलबाग, नई दिल्ली-110 005 एसपी-2 : कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति हेतु) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबिक, अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 क अधिनियम 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड का अधिकत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों 1. श्री राजकुमार राठी पुत्र पुनम चन्द राठी, (2) श्रीमती आकृति राठी पत्नी सौरभ राठी, (3) श्रीमती सोनल राठी पत्नी उदित राठी, (4) श्रीमती दिव्या राठी पत्नी श्रीवर्धन राठी, (5) श्रीमती सुषमा राठी पत्नी राजकुमार राठी सभी निवासी 26ए, साधना एन्कलेव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 से कथित सुचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 1,24,97,942.57 (रुपये एक करोड चौबीस लाख सत्तानबे हजार नौ सौ बयालीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए दिनांक 13.05.2019 को एक माँग सचना निर्गत

अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों 1. श्री श्रीवर्धन राठी पुत्र श्री प्रदीप राठी, (2) श्रीमती आकृति राठी पत्नी सौरभ राठी, (3) श्रीमती सोनल राठी पत्नी उदित राठी, (4) श्रीमती दिव्या राठी पत्नी श्रीवर्धन राठी, (5) श्रीमती सुषमा राठी पत्नी राजकुमार राठी सभी निवासी 26ए, साधना एन्कलेव, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 से कथित सुचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 1,06,71,304.45 (रुपये एक करोड़ छः लाख इकहत्तर हजार तीन सौ चार एवं पैंतालीस पैसे मात्र) का पुनर्भुगतान करने

के लिए कहते हुए दिनांक 13.05.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी। कर्जदार द्वारा राशि अदा करने में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 30 जुलाई, 2020 को कब्जा कर लिया

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा इस सम्पत्ति से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 2.31.69.247.02 (रुपये दो करोड इकतीस लाख उनहत्तर हजार दो सौ सैंतालीस एवं दो पैसे मात्र) तथा इस पर ब्याज के लिए द करूप वैश्य बैंक लिमिटेड के अभियोग

अचल सम्पत्ति का विवरण

|गैर-कृषि रिक्त भूमि माप लगभग 4 बीघा 16 बिस्वा, मुस्ताली एनआई. 98, किला सं. 13, मिन (2-8) से निर्मित, ग्राम डेरा मंडी, तहसील हौज खास, मेहरौली, नई दिल्ली की राजस्व सम्पदा में स्थित तथा सीमाएँ निम्नलिखित हैं: दक्षिणः 20 फीट चौडी सडक

उत्तरः अन्य के फार्म हाउस ||पूर्वः कथित सम्पत्ति का शेष भाग

का प्रभार होगा।

पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क/मल्होत्रा का

फार्म हाउस न. 66

तिथि: 20.07.2020 अधिकत प्राधिकारी स्थानः दिल्ली

द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड NATIONAL GENERAL INDUSTRIES LIMITED

Apollo

इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजी. कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली-मधुरा रोड, नई दिल्ली 110 076 (भारत) कापॉरेट पहचान संख्या.: L24232DL1988PLC030958 दूरभाष : 91-11-26925858, 26925801, फेक्स : 91-11-26823629 ई-मेल : imcl@apollohospitals.com, वेबसाइट : delhi.apollohospitals.com

स्चना

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आई ई पी एफ) प्राधिकरण में शेयरों का अंतरण

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 124 (6) तथा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण, तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ('नियमावली') यथा संशोधित, के अनुपालन में ऐसे सभी शेयरों जिसके संदर्भ में किसी भी शेयर धारक द्वारा पिछले लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से लाभांश प्राप्त नही किया गया है अथवा उसका दावा नहीं किया गया है को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जायेगा।

कंपनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयरों को उक्त नियमावली के अंतर्गत आई ई पी एफ के डीमेट खाते में अंतरित किया जाना है, को व्यक्तिगत रूप से सुचित कर दिया है तथा उन्हें लाभांश का शीघ्र दावा करने की सलाह दी जाती है। उनके नाम, फोलियों नंबर तथा डी पी आई डी- क्लाइंट आई डी, जो आई ई पी एफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में अंतररण के लिए नियत है, सहित ऐसे शेयरधारकों का संपूर्ण विवरण कंपनी ने अपनी वेबसाइट delhi.apollohospitals.com पर अपलोड कर दिया है।

यदि कंपनी को 30 अक्टूबर, 2020 तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सचना प्राप्त नहीं होती है नियमावली में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में कंपनी बिना किसी अग्रिम सूचना के आई ई पी एफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित करेगी।

भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयरों को अंतरित किया जाना है, यह ध्यान रखे कि नियमावली के अनुसार आई ई पी एफ प्राधिकरण की डीमेट खाता में शेयरों के अंतरण के लिए यह कंपनी उनके द्वारा धारित शेयर प्रमाण-पत्रों के बदले में डुप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी करेगी। कृपया ध्यान दे ऐसे ङ्प्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र जारी, करने के उपरांत, उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगे तथा गैर-परक्राम्य समझा जायेगा। उन मामलों में जहां संबंधित शेयरहोल्डरों द्वारा शेयर डीमेट रूप में धारित किये हैं, कम्पनी आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में अंतरण के लिए कारपोरेट कार्रवाई द्वारा डिपोजिटरी को सुचित करेगी।

आगे. संबंधित शेयरधारक यह ध्यान रखें कि कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को नियमावली के अनुसार आई ई पी एफ प्राधिकरण में भौतिक शेयरों के अंतरण के उददेश्य से कंपनी द्वारा इप्लीकेट शेयर प्रमाण-पत्र (त्रों) को जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा। यह भी ध्यान रखें कि दावा रहित लाभांशों तथा आई ई पी एफ में अंतरित इक्विटी शेयरों का कम्पनी के प्रति कोई दावा नही होगा। नियमावली में निद्रिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर शेयरधारक अंतरित किये गये शेयरों के साथ ही साथ अप्रदत लाभांशों को वापस प्राप्त करने के लिए आई ई पी एफ प्राधिकरण में अपने दावे प्रस्तुत कर सकते है।

यदि विषय-वस्तु पर कोई जिज्ञासा हो तो वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आर टी ए) – मैं लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि./ ईकाई: इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कारपोरेशन लिमिटेड, में नोबल हाइटस प्रथम तल, सी-1 ब्लाक, एलएससी, नियर सावित्री मार्केट, जनक पुरी नई-दिल्ली -110058 से संपर्क कर सकते है।

कृते इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड

ARYAMAN ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd Office: 102, Ganga Chambers, 6A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi - 110 005.

Corporate Office: 60, Khatau Building, Gr. Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P.J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai - 400 001,

Tel.: 022 - 6216 6999; Fax: 22630434; Website: www.afsl.co.in; Email: info@afsl.co.in

CIN: L74899DL1994PLC059009

Extract of the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated)

for the Quarter/Year ended 31st March 2020

Quarter ended

Audited Unaudited Audited

पी. शिवकुमार

प्रबंध संचालक

Standalone

Year ended

Audited Audited Audited

31.03.20 31.12.19 31.03.19 31.03.20 31.03.19 31.03.20 31.03.19

दिनांक: 31.07.2020 स्थानः नई दिल्ली

Particulars

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरत्न कम्पनी (मार्त सरकार का उपक्रम) (A govt. of India Undertaking) आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली - 110020 सार्वजनिक नीलामी / निविदा सूचना

ई- नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए/अदावाकृत आयातित/आंतरिक क्षतिग्रस्त कंटेनर/कार्गों का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड एरिया—। (उत्तरी), के उन कंटेनरो पर या 31.05.2020 से पहले एरिया— (उत्तरी) के टर्मिनलो पर पढ़े रदी वस्तुओ, खाली पढ़े आंतरिक क्षतिग्रस्त कंटेनरो और अदावाकत / क्लियर ना किये गए आयातित / आंतरिक-कंटेनर / कार्गो की ई-नीलामी के माध्यम रं 10.08.2020, 21.08.2020 व 31.08.2020 को "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी करेगा नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों एवं कार्गो विवरणों के साथ सभी विवरण 01.08.2020, 11.08.2020 एवं 21.08.2020 से www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध होंगे। सभी आयातकों जिनमे सरकारी उपक्रम / विमाग भी शामिल हैं, के कंटेनर / सामान किसी विवाद न्यायालय / अधिकरणा / अन्यो द्वारा दिये गए स्थगन के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण र संबन्धित टर्मिनलों पर अदावाकृत / क्लीयर न किए गए पड़े हैं और वेबसाइट में अपलोड की गई उक्त सूची में आते हैं, वे संबन्धित कार्यकारी निदेशक, एरिया-। (उत्तरी) कॉनकोर, और संबन्धित,कमिश्न रेट-सीमा शुल्क, आयुक्त – सीमा शुल्क को तदनुसार सुचित कर सकते हैं और इस सुचना के 7 (सात दिनों) के शीतर ऐसे सामानो के निपटान के संबंध में अपनी आपातिया / दावे दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिये बगैर सामानों की "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी कर दी जाएगी । पूर्ण विवरण के लिए कृपया www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें। कार्यकारी निदेशक. एरिया । (उत्तरी

पदम कॉटन यार्न लिमिटेड

सीआईएन : L17112HR1997PLC033641 पंजीकृत कार्यालयः 196, पहली मंजिल, विपरीत रेड क्रॉस भवन, जी. टी. रोड़, करनाल- 1321001, हरियाणा। फोन: 0184-6616601-9

ईमेल :rajevoswal@yahoo.com | वेबसाइट :www.padamcotton.com

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही अन-ऑडिटेड वित्तीय परिणाम

10.	0		तिमाही		वार्षिक		
	विवरण		(अन-ऑडिटेड)				
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020		
1	संचालन से कुल आय	0.00	0.15	0.00	0.48		
2	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	-3.46	-3.07	-4.67	-10.30		
3	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	-3.46	1.24	-4.67	-5.99		
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-3.46	-3.07	-4.67	-10.30		
5	पेड उप इक्विटी शेयर कैपिटल	387.30	387.30	387.30	387.30		
6	प्रति शेयर आय (रु.10/- प्रत्येक)						
	(नॉट) बेसिक एंड दिलउटेड	-0.09	-0.03	-0.12	-0.15		

टिप्पणी: उपरोक्त सेबी (सुचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है ।तिमाही वित्तीय परिणामों का पुरा प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेजों (बीएसई) की वेबसाइट पर उपलब्ध है www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.padamcotton.com.

पदम कॉटन यार्न लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से हस्ता/-राजीव गुप्ता (प्रबंध निदेशक)

दिनांक: 31.07.2020 डीआईएनः ००१७२८२८ रथानः करनाल

Rs. in Lakhs

Consolidated

Year ended

पंतनगर में बनेगा उत्तराखंड का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

देहरादून, 31 जुलाई (भाषा)।

उधमसिंहनगर जिले के पंतनगर में लगभग 1100 एकड भूमि पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की 1072 एकड़ भूमि का चयन

किया गया है, जिसे भारतीय

में हस्ताक्षर की तिथि ''02 अगस्त, 2020'' की जगह '30 जुलाई, 2020' पढ़ें। अस्विधा के लिये खेद है

मै. ऊर्जा ग्लोबल लि. की बोर्ड की बैठक की सुचन

जो समाचार पत्र में 31.7.2020 को प्रकाशित हुई है

विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के बाद प्री फिजीबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट में तकनीकी रूप से उपयक्त पाया गया है।

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED CIN:L74899DL1988PL031191

Regd. Off.: B-2/8 Safdarjung Enclave, Delhi -110029 Tel 41650347, Fax no. 011-26191358 Email ID info@bagla-group.com,website.www.bagla-group.com Statement of Audited Financial Results for the Year Ended and

Quarter Ended as on				1.00	i. in lacs)
PARTICULARS	31/03/2020 Audited			31-03-2020 Audited	31-03-2019 Audited
Total Income from operations (net)	3,372	4,174	4,327	15,872	14,238
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	(28)	234	217	574	355
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(28)	234	217	574	355
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	56	234	43	658	237
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	56	234	43	658	237
Equity Share Capital	512	512	512	512	512
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year)	8			*3	2,420
Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic (b) Diluted	1.09	4.57 4.57	0.84 0.84	12.85 12.85	4.63 4.63
	PARTICULARS Total Income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year) Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic	PARTICULARS Total Income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year) Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic 1.09	PARTICULARS Total Income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (28) 234 (after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year) Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic Quarter Ended 31/03/2020 31/12/2019 Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Incomprehensive (after Tax) Incomprehensive Sheet of Sheet of Previous Year) Incomprehensive Income (after tax) In	PARTICULARS Total Income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, (28) 234 217 Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (28) 234 217 (after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year) Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic Unaudited Vunaudited Audited Audited Vinaudited Sheet end (28) 234 217 (2	PARTICULARS Quarter ended Year 31/03/2020 31/12/2019 31/03/2019 31-03-2020 Audited Unaudited Audited Audited

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30.07.2020 and the Statutory Auditor of the

Company has issued their Limited Review Report on the same. . The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Metropolitan Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Metropolitan Stock Exchange website Stock Exchange websites, namely The Bombay Stock Exchange Limited www.bseindia.com, The Calcutta Stock Exchange -www.cse-india.com and the Company's website www.bagla-group.com. For & on behalf of the Board

Hindustan Adhesives limited **Amit Kumar** M.S.Bagla

Managing Director

Place : Delhi

मान एल्युमिनियम लिमिटेड पंजीकृत. कार्यालयः 4/5, फर्स्ट फ्लोर, असफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

CIN: L30007DL2003PLC214485. फोन: 011-40081800.

वेबसाइटः www.maanaluminium.com, ईमेलः secretarial@maanaluminium.in



31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

(रू. लाखों में ईपीएस को छोडकर) समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च विवरण 2019 2020 2020 2019 (अंके क्षित) (अंके सित) (अंके सित) (अंके क्षित) प्रचालन सकल से कुल आय 9,851 20.507 52,419 65,199 अपवादात्मक मदों और कर से पहले शुद्ध लाभ 84 337 915 1,440 कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ 84 915 1,440 337 कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ 83 215 755 917 अवधि के लिए कुल व्यापक आय 89 206 753 912 इक्विटी शेयर पूंजी 676 676 676 676 प्रत्येक रू. 10/- से प्रति शेयर आय

1.23

3.18

नोदसः

बेसिक व डायल्युटिड ईपीएस

ा. 31 जुलाई, 2020 को आयोजित बैठक में 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. सेबी (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई उपरोक्त वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। सम्पूर्ण वित्तीय परिणाम www.bseindia.com www.nseindia.com और www.maanaluminium.com पर उपलब्ध है।

कृते और बोर्ड की ओर से हस्ता/-(रविन्द्र नाथ जैन) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN: 00801000

11.17

13.57

स्थानः नई दिल्ली तिथिः 31 जुलाई, 2020

Dr Lal PathLabs

Dr. Lal PathLabs Limited

CIN: L74899DL1995PLC065388

Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi- 110085 Corporate Office: 12° Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram-122 001, Haryana

Phone: +91 124 3016500; Fax: +91 124 4234468; Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com Extract of Consolidated Financial Results for the guarter ended 30 June, 2020

			(Rs. in million	except as stated)	
S. No.	Particulars	3 months ended 30 June, 2020	Year ended 31 March, 2020	Corresponding 3 months ended 30 June, 2019	
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	
1	Total Income from Operations	2,774	13,854	3,496	
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items#	381	3,105	894	
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items#	381	3,105	894	
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items#	284	2,276	591	
5	Total Comprehensive Income for the period after tax#	275	2,265	595	
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- per share)	833	833	833	
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)	8 92			
	(a) Basic (In Rs.)	3.45	27.42	7.14	

#Before non-controlling Interest

(b) Diluted (In Rs.)

Key numbers of the Standalone Results are as under:

7.13

27.37

			(Rs. in r	million except as stated)
S. No.	Particulars	3 months ended 30 June, 2020	Year ended 31 March, 2020	Corresponding 3 months ended 30 June, 2019
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	2,661	13,312	3,386
2	Profit for the period before Tax	385	3,027	867
3	Profit for the period after Tax	288	2,232	573
4	Total comprehensive income	279	2,221	577

3.44

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 31 July, 2020.

iii. The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of

Indian Accounting Standard 108- 'Operating Segments', prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013. iv. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the Quarter ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com).

> For and on behalf of the Board of Directors of Dr. Lal PathLabs Limited

> > Dr. Om Prakash Manchanda **Managing Director**

Regd. Off: 3rd Floor, Surya Plaza, K-185/1, Sarai Julena, New Friends Colony, New Delhi - 110025 Tel. No.: 011-49872442 E-mail: cs@modisteel.net, CIN: L74899DL1987PLC026617 Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31"March 2020

		Year Ended			
Particulars	31-03-2020 Audited	Quarter Ended 31-12-2019 Un-audited	31-03-2019 Audited	31-03-2020 Audited	31-03-2019 Audited
Total income	482.57	463.60	487.81	1996.15	1863.32
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional)	(51.55)	15.90	(6.80)	(92.78)	38.78
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and after Exceptional)	(51.55)	15.90	(6.80)	(92.78)	38.78
Net Profit / (Loss) for the period (after tax and Exceptional)	(42.42)	14.30	(12.45)	(89.08)	30.17
Equity Share Capital	466.96	466.96	466.96	466.96	466.96
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)				1754.53	1919.14
Earnings Per Share(of Rs. 10/ each) (for continuing and discontinued operations) - Basic(in Rs.):	(0.77)	0.26	(0.22)	(1.61)	0.55
- Diluted (in Rs.):	(0.77)	0.26	(0.22)	(1.61)	0.55

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.modisteel.com). For National General Industries Limited

Pawan Kumar Modi Jt Managing Director DIN: 00051679

117.38 119.16 127.40 478.12 865.57 8946.18 8676.53 1 Total income from operations 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 33.00 (144.16) 120.08 221.88 131.03 242.83 12.78 Exceptional and/or Extraordinary items) 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax 120.08 221.88 131.03 242.83 12.78 33.00 (144.16) (after Exceptional and /or Extraordinary items) 4 Net Profit/(Loss) for the period after tax 23.82 (99.15)83.50 165.10 93.30 179.27 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 5 Total Comprehensive Income for the period (115.77) 156.29 (Comprising Profit/Loss for the period after tax) 23.82 (99.15) 83.50 165.10 and Other Comprehensive Income (after tax) 6 Equity Share Capital 1168.20 | 1168.20 | 1168.20 | 1168.20 1168.20 1168.20 1168.20 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of 1094.00 1010.50 1831.99 1894.77 previous year) 8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -1. Basic 1.41 1.53 0.05 0.20 (0.85)0.71 0.80 2. Diluted: 0.05 0.20 (0.85)0.71 1.41 0.80 1.53

No.

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Financial Results filed with the BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarter and Year ended Financial Results is available on the website of BSE Limited and the website of the Company i.e.

(http://afsl.co.in/investor-relation.html) b) In terms of SEBI Circular CIR/CFD/CMD/56/20 dated 27.05.2016, the Company hereby declares that the Auditors have issued

Audited Reports with unmodified opinion on Annual Audited Financial results for the year ended March 31, 2020. c) The above result for the quarter and year ended 31st March 2020 have been reviewed by the audit committee meeting held on

31st July, 2020 and approved by the Board of Directors in their meeting held on 31st July, 2020. For Aryaman Financial Services Limited Date: July 31, 2020 Place: Mumbai Shripal Shah

ROLLATAINERS LIMITED

CIN: L21014HR1968PLC004844; Regd. Off.: Plot No. 73-74, Phase-III, Industrial Area, Dharuhera,

Distt. Rewari, Haryana-123106 Tel.: 01274-243326, 242220

E-mail: cs.rollatainers@gmail.com Website: www.rollatainers.in

POSTPONEMENT OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations & Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, notice is hereby given

that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the

Company which was re-scheduled to be

held on Friday, July 31, 2020, is now

postponed and further re-scheduled to be

held on Monday, August 10, 2020 inter

alia, to consider, approve and take on

record the Standalone and Consolidated

Audited Financial Results for the Quarter

and Year ended on March 31, 2020.

and NSE i.e. www.nseindia.com

Date: 30.07.2020

Place: New Delhi

विक्रय निविदा सूचना Khadim's

जल से प्रभावित 54,394 जोड़ी जूतों के लिए जहाँ है जैसे है आधार पर सम्भावित 16 अगस्त, 2020 से पूर्व सम्भावित क्रेताओं से मुहरबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं। कथित सामग्री 71/61 एम.जी. रोड, टीटागढ, कोलकाता-700119 पर स्थित वेयरहाउस में पड़ी है। स्टॉक के निरीक्षण हेतु सम्पर्क व्यक्ति श्री अवजीत मुखर्जी (मोबाइल 9836463209)। मैसर्स खादिम इण्डिया लिमिटेड, कांकरिया एस्टेट, 5वीं मंजिल 6, लिटिल रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-700071 को देय निविदा सहित डीडी/पीओ द्वारा प्रस्ताव मूल्य की 10% धरोहर राशि निविदा के साथ संलग्न की जानी है।

मीआइएन: L02710CT1989PLC010052 इ-मल: rai_nisl2007@yahoo.com फोन: 077-52285217, फैक्स: 077-52285213 धैवसाइटः www.novaironsteel.com दिनांक 30.06.2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक

> वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृते नोवा आयरन एण्ड स्टील लि. इ./- (धीरज कुमार)

दिनोक: 31.07.2020

13.08.2020 को होगी। सुचना शेयर बाजार की

कम्पनी सचिव

Executive Director

नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.

पंजी. कार्याः गांव-डागीरी, तहसील बेल्हा, जिला- बिलासपुर, छतीसगढ़

MGM REALTORS PRIVATE LIMITED CIN: U45200DL2008PTC181473 Regd. Office: 108, First Floor, Madangir Village, New Delhi -110062 E-mail: mgmrealtor12@gmail.com Website: www.mgmrealtor.com POSTPONEMENT OF BOARD MEETING

Pursuant to provision of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was re-scheduled to be held on July 31, 2020 i.e. today is now postponed and re-scheduled to be held on Monday, August 10, 2020, inter alia, to consider and approve audited financial results of the Company for the Half Year and Year Ended on March 31, 2020.

The said Notice may be accessed on the the Company's website at Company's website at www.rollatainers.in http://www.mgmrealtor.com and & the website of BSE www.bseindia.com the website of BSE at http://www.bseindia.com. For Rollatainers Limited

The said Notice may be accessed on

Sd/-**PYUSH GUPTA** (Director) Place: New Delhi DIN: 03392865

For MGM Realtors Private Limited Date: 31.07.2020 SHIV SHANKAR SAH Chief Financial Officer

Place: Gurugram Date: 31 July, 2020

www.readwhere.com

Place: New Delhi Date: 31-07-2020

FINANCIAL EXPRESS

LANDMARK PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED Registered Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23 Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN: L13100DL1976PLC188942 Tel: 011-43621200 Fax: 011-41501333 E-mail: info@landmarkproperty.in, Website: www.landmarkproperty.in

Transfer of shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) pursuant to Section 124(6) and 125 of the Companies Act, 2013 read with IEPF (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 as amended and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Members are hereby informed that unclaimed dividend for the financial year ended 31s March, 2013 and the corresponding Equity Shares of the Company in respect of which dividend entitlements have remained unclaimed for seven consecutive years from the financia year ended 31st March, 2013 will be due for transfer to the Investor Education and Protection Fund of the Central Government (IEPF) on 1st November, 2020, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended. The names of the concerned Members and their folio numbers or DP ID and Client ID numbers are available on the Company's website www.landmarkproperty.in under the Section Investors Information'. Individual letters have also been sent to the concerned Members in this regard at their address registered with the Company.

The aforesaid Members may lodge their claim in respect of the above with the Company at its Registered Office at 11th Floor, Narain Manzil, 23 Barakhamba Road, New Delhi-110001 In case any valid claim is not received by the Company by 29th September, 2020, the Company, in accordance with the aforesaid provisions of law, shall transfer such dividend and shares to the IEPF.

For further information in the matter or to claim the unclaimed dividend, concerned members may send email to the Company at info@landmarkproperty.in or calling the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s C B Management Services (P) Ltd. P-22, Bondel Road, Kolkata 700 019, at telephone nos. 033-40116700/6742 or sending them email a rta@cbmsl.com

> For Landmark Property Development Company Limited Ankit Bhatia

Company Secretary Date: 31st July, 2020

NDRAPRASTHA MEDICAL CORPORATION LIMITED



Place: New Delhi

Regd. Office: Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi – 110 076 (India)
Corporate Identity Number: L24232DL1988PLC030958
Phone: 91-11-26925858, 26925801, Fax: 91-11-26823629
E-mail: imcl@apollohospitals.com, Website: delhi.apollohospitals.com

MOTICE Transfer of Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, notice is hereby given to the shareholders of the Company that all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the demat account of IEPF Authority.

The Company has already sent individual communication to the latest available addresses of the shareholders, whose shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF authority and advising them to claim the dividends expeditiously. The Company has also uploaded the statement containing the names of the shareholders, whose shares are due for transfer to the demand account of IEPF Authority, with their folio number or DP ID-Client ID on its website at delhi.apollohospitals.com

In case, the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th October, 2020, the Company will proceed to transfer the shares to the demat account of the IEPF Authority without any further notice, as per procedure stipulated in the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF authority, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the demat account of IEPF Authority. Please note that on issue of such duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) which stand registered in their name will be deemed cancelled and non-negotiable. In cases, shares are held by concerned shareholders in demat form and are liable to be transferred to demat account of IEPF authority, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of such shares to the demat account of IEPF

The Concerned shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the demat account of IEPF Authority, as per the above mentioned Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to IEPF.

The concerned shareholders may note that, upon such transfer, they can claim the said shares(s) along with the dividend(s) from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.

For any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) - M/s. Link Intime India Private Limited, Unit Indraprastha Medical Corporation Limited at Noble Heights, 1st Floor, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058.

For Indraprastha Medical Corporation Limited

Date: 31.07.2020 Place: New Delhi

P. Shivakumar Managing Director

MARUTI & SUZUKI MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

CIN: L34103DL1981PLC011375 Regd. Off.: Plot No.1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Ph.: +91 (11) 46781000, Fax: +91 (11) 46150275 www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

INFORMATION REGARDING NOTICE OF 39" ANNUAL GENERAL MEETING ('AGM') TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM). BOOK CLOSURE AND FINAL DIVIDEND

The AGM of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 26th August

2020 at 10:00 a.m. through VC/OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ('Act') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circula Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA' and SEBI to transact the businesses that will be set forth in the Notice of the Meeting . The Notice of AGM and Annual Report shall be sent to all the Members whose email

addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website i.e. www.marutisuzuki.com and on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com 3. Manner of registering /updating email addresses:

Members holding the shares in physical form, who have not registered/updated their

email addresses with the Company, are requested to register/update the same by writing to its Registrar and Transfer Agent (RTA) at einward.ris@kfintech.com along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the Member self-attested copy of PAN card and self-attested copy of any other document (eg: Driving License, Vote ID card, Passport etc.) in support as address proof of the Membe as registered with the Company.

Members holding shares in dematerialised form, who have not registered/updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts.

4. Manner of casting vote(s) through e-voting:

 a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system (e-voting). The manner of voting remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialised form, physical form and for Members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of AGM which shall also be available on the website of the Company i.e. www.marutisuzuki.com

b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

c) The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) may generate login credentials by following instructions given in the Notes to

Notice of AGM. 5. Book Closure for dividend and payment thereof:

a) The Company has fixed Book Closure from Saturday, the 15th August, 2020 to Wednesday, the 26th August, 2020 (both days inclusive) for determining entitlement of Members to dividend for the Financial Year 2019-20.

 Subject to the approval of Members, Dividend will be paid to the Members on the basis of details of beneficial ownership furnished by the Depositories, as at the close of Friday, the 14th August, 2020 and in respect of shares held in physical form to those Members whose name will appear in the Register of Members of the Company as on the close of Wednesday, the 26th August, 2020.

c) As per the relevant circulars, payment of dividend shall be made through electronic mode to the Members who have updated their bank account details. Dividend warrants demand drafts will be dispatched to the registered addresses of the Members who have not updated their bank account details, after normalization of postal service. d) Payment of dividend will be subject to deduction of Tax at Source (TDS) at applicable

rates. For more details, please refer to the Notes to Notice of AGM. Manner of registering mandate for receiving Dividend :

Members are requested to register/update their complete bank details

a) with their Depository Participants with whom they maintain their demat accounts, if shares

are held in dematerialised form by submitting the requisite documents. Details in a form prescribed by your Depository Participant may also be required to be furnished; and b) with the Company (where shares are held in physical mode) at einward.ris@kfintech.com along with a copy of signed request letter mentioning the name of member, folio no.

bank details, self-attested copy of PAN card and a cancelled cheque leaf.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGN and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM.

For Maruti Suzuki India Limited

New Delhi

31" July, 2020

financialexp

Sanjeev Grover

Vice President & Company Secretary

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

CORP OFFICE: 8th Floor, 29, The Ruby, Senapati Bapat Marg, (Tulsi Pipe Road), Dadar West,

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

-		· T I	TI	T1	KS III IIIIIIII
Sr. No	Particulars	Three months ended 30.06.2020 Unaudited	Three months ended 31.03.2020 Audited (Refer Note 2)	Three months ended 30.06.2019 Unaudited	Year Ended 31.03.2020 Audited
1.	Revenue from Operations	3,024.83	4,307.58	3,797.66	16,356.57
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items#)		402.04	338.09	1,505.74
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)		402.04	338.09	1,505.74
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	112.51	282.79	265.37	1,125.07
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	110.77	274.13	267.73	1,118.57
6.	Equity Share Capital	1,100.26	1,100.26	900.16	1,100.26
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) –			ri	
	1. Basic: 2. Diluted:	1.02 1.02	2.96 2.96	2.95 2.95	11.77 11.77
Not	96.				

Date: 31st July 2020.

Opera House Phone: 23692926 / 56051035.

Phone: 23748048 / 23714748.

Antop Hill Phone: 24159061 Mobile: 9769238274/ 9969408835

Abdul Rehman Street, Phone: 2342 9163 / 2341 4596.

Nariman Point, Phone: 40020550 / 51.

Fulrani Advtg. & Mktg.

Ganesh Advertising,

J.K. Advertisers, Hornimal Circle, Fort

Mani's Agencies, Opp.G.P.O., Fort. Phone: 2263 00232. Mobile: 9892091257.

Manivot Ads.

Currey Road (E) Phone: 24700338. Mobile: 9820460262.

OM Sai Ram Advtg.,

Currery Road Mobile: 9967375573

Mazagaon, Phone: 23701070.

Mumbai Central Mobile: 9819891116

Sarian Advertising.

Phone: 66626983

S. Arts Advtg. Masjid

Phone: 23415111

Taj Publicity Services, Byculla (W), Phone: 2305 4894.

Mobile : 9892011371

Yugarambha Advertising, Girgaon, Phone: 2386 8065. Mobile: 9869074144.

Phone: 022-65881876

B. Y. Padhve Publicity Services.

Datey Bhavan, Dadar (W)
Mobole: 8452846979/ 9930949817

Shree Swami Samarth Advertising,

Phone: 022-66393184/ 022-66332340

Mobile: 9820295353/ 9821656198

Aaryan Publicity Dadar (E),

Dadar (W), Phone : 2422 9241/

DATEY Advertising,

Hook Advertainment

Mobile: 8691800888

Central Advertising Agency, Mahim (W), Phone: 24468656 / 24465555

Charudatta Advertising, Mahim (W), Phone: 24221461

Jay Publicity, Dadar(E).

Dadar (W) Mobile: 9869109765

Phone: 24124640

Dadar (W), Phone: 24440631

Mobile : 9869131962

Dadar (W), Phone: 24304897

Time Advertising, Matunga (W), Phone: 2446 6191

Vijaya Agencies, Dadar (W), Phone: 2422 5672.

Media Junction.

Bandra (W.).

Reckon

Phone: 22691584

Bandra (W), Mobile: 9664132358

Bandra (W.), Mobile: 9867445557

2422 0445.

Phone: 40024682/40792205.

Mobile: 9869040181.

Pinto Advertising,

Phone: 22663742.

CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

Place: Mumbai

1. The above results were reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31.07.2020 and have been reviewed by the statutory auditors of

2. The figures for three months ended 31.03.2020 are arrived at as difference between audited figures in respect of the full financial year and the unaudited published figures upto nine months ended on 31.12.2019.

3. During the year ended 31.03.2020, the Company had completed the Initial Public Offer (IPO) of

its equity shares comprising a fresh issue of 1,40,44,943 equity shares having a face value of Rs.

10 each at an offer price of Rs.178 per share aggregating to Rs.2,500 million and an offer for sale of 1,40,44,942 equity shares by existing shareholders aggregating to Rs.2,500 million. Pursuant to the IPO, the equity shares of the Company have got listed on BSE limited and NSE limited on 30.12.2019. 4. During the year ended 31.03.2020, the Company had undertaken a private placement of 5,96,500

59.65,000 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs. 168 each on 09.12.2019. 5. In view of the unprecedented COVID 19 pandemic, the management has made an assessment of its position as at the guarter ended June 2020. In assessing, the Company has taken into consideration external and internal information upto the date of approval of these financial results. Based on the assessment, the Company expects to recover carrying amount of assets and revenue recognised. In accordance with the Government's directive post partial lifting of the lockdown from 23.04.2020 and after receiving the necessary approvals from the respective government

6. The Company is leading manufacturer of PVC, CPVC, PPR and HDPE Piping Solutions primarily

7. The figures for the previous periods have been regrouped wherever necessary.

For and on behalf of Board **Prince Pipes and Fittings Limited**

Jayant Shamji Chheda Chairman and Managing Director (DIN: 00013206)

MPRINCE PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED

CORP OFFICE: 8th Floor, 29 The Ruby, Senapati Bapat Marg, (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai – 400 028. **TELE No.**: 022 6602 2222 **FAX No.**: 022 6602 2220 **EMAIL ID:** investor@princepipes.com **WEBSITE**: www.princepipes.com CIN: L26932GA1987PLC006287

Statement of Deviation/ Variation in Utilisation of Funds raised under Initial Public Offer pursuant to Regulation 32 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sr. No.	Particulars	Remarks			
1	Name of Listed Entity	Prince Pipes and Fittings Limited			
2	Mode of Fund Raising	Initial Public Offer			
3	Date of Raising Funds	December 30, 2019			
4	Amount Raised	Rs. 250 Crores*			
5	Report filed for Quarter ended	June 30, 2020			
6	Monitoring Agency	Applicable			
7	Monitoring Agency Name, if applicable	HDFC Bank Limited			
8	Is there a Deviation/ Variation in use of Funds raised	No Deviation			
9	If yes, whether the same is pursuant to change in terms of a contract or objects, which are approved by the shareholders				
10	If yes, Date of Shareholders Approval	Not Applicable			
11	Explanation for the Deviation/ Variation	Not Applicable			
12	Comments of the Audit Committee after review	No Comments			
13	Comments of Auditors, if any	<u> </u>			
Objects for which funds have been raised and where there has been a deviation, in the following tab					

Sr. No.		Modified Object, if any	Original Allocation (Rs. In Million)	Modified allocation if any	Funds Utilised	Amount of Deviation/Variation for the Quarter according to applicable object	Remarks if any
1	Repayment or prepayment of certain outstanding loans of our Company	NA	100.00	NA	Nil	NA	-
2	Financing the project cost towards establishment of new manufacturing facility, either set up directly or indirectly (through wholly owned subsidiary that our Company may set up in the future)	NA	1590.00	NA	Nil	NA	-
3	Upgradation of equipment at our Manufacturing facilities	NA	491.00	NA	Nil	NA	-
4	General Corporate purposes, subject to the applicable laws	NA	319.00	NA	Nil	NA	-
	Total		2500.00				

The Initial Public Offer of the Company was for Rs.500 Crores i.e. Rs. 250 Crores of Fresh Issue and Rs. 250 Crores of Offer for Sale. Therefore, the amount raised by the Company through Initial Public Offer is Rs. 250 Crores.


Deviation or variation could mean: a) Deviation in the objects or purposes for which the funds have been raised or

b) Deviation in the amount of funds actually utilized as against what was originally disclosed or

c) Change in terms of a contract referred to in the fund raising documents i.e prospectus, letter of offer etc

For Prince Pipes and Fittings Limited

Jayant Shamji Chheda Chairman and Managing Director (DIN: 00013206)



Place: Mumbai

Date: 31st July 2020.

Regd. & Corporate Office: Sai Hira, Survey No. 93, Mundhwa, Pune - 411 036. Website: www.dfpcl.com Investors relation contact: investorgrievance@dfpcl.com, Tel: +91-20-6645 8000

(Amounts in ₹ Lakhs unless otherwise stated)

Sr. No.	Particulars	Consolidated			
		Quarter Ended 30/06/2020	Quarter Ended 30/06/2019	Year Ended 31/03/2020	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total income from operations (net)	138,208	112,220	468,538	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	16,724	1,560	10,308	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	16,724	1,560	10,308	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	12,114	1,070	8,901	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	12,318	918	7,923	
6	Equity Share Capital (Face value of ₹10/- per share)	8,928	8,820	8,928	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year	576	Ħ	209,150	
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Rs.) (for continuing and discontinued operations) Basic : Diluted :	13.46 13.03	1.12 1.12	9.83 9.83	

	Diluted:	13.03	1.12	9.83	
	Key numbers of Standalone Financial Results	(Amounts in ₹ Lakhs unless otherwise stated)			
		Quarter Ended 30/06/2020	Quarter Ended 30/06/2019	Year Ended 31/03/2020	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations (Net)	48,912	53,601	170,775	
2	Net Profit / (loss) before Taxes	11,899	(1,119)	2,193	
3	Net Profit / (loss) after Taxes	8,908	(662)	3,071	

Notes:

Place: Pune

Date: 31-07-2020

1. The above is an extract of the detailed format of the guarter ended 30th June, 2020 financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.dfpcl.com).

Previous period's figures have been restated / reclassified / regrouped wherever necessary (refer the full financial results).

3. #Exceptional and / or Extraordinary item adjusted in the statement of the Profit and Loss in accordance with Ind-AS rule.

4. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Meetings held on 31st July, 2020.

For and on behalf of the Board of Directors of

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

S C MEHTA

Chairman and Managing Director

DIN: 00128204

Founded in 1979, Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL) is India's leading producer of Fertilisers and Industrial Chemicals

Mumbai – 400 028. **TELE No.**: 022 6602 2222 **FAX No.**: 022 6602 2220 **EMAIL ID:** investor@princepipes.com **WEBSITE**: www.princepipes.com CIN: L26932GA1987PLC006287

QUARTER AND THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2020

Compulsorily convertible preference shares (CCPS) having a face value of Rs.100 each at a

premium of Rs. 168 each aggregating to Rs.1,061.77 million. The same have been converted into

departments, vide our intimation letter on 05.05.2020, the Company resumed partial operations including dispatch of finished goods to our channel partners and gradually scaling up the utilization of manufacturing facilities across the nation.